



सत्यमेव जयते

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 08]	दिल्ली, बुधवार, जून 14, 2017/ज्येष्ठ 24, 1939	[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 109
No. 08]	DELHI, WEDNESDAY, JUNE 14, 2017/JYAISTHA 24, 1939	[N.C.T.D. No. 109

भाग—II — 1

PART— II — 1

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

ed[; puko vf/kdkjh dk; kY;] fnYyh

vf/kl ipuk, a

दिल्ली, 14 जून 2017

सं. मु.चु.अ./चु.सं./102(33)/2017/20487.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2017

सं. 479/2017.—यतः भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी की पदावधि की समाप्ति संविधान के अनुच्छेद 56 के खण्ड (1) के अनुसार तारीख 24 जुलाई, 2017 को होने वाली है; और

यतः संविधान के अनुच्छेद 62 के खण्ड (1) के अनुसार, उनकी पदावधि समाप्त होने से पूर्व पदधारी राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कराया जाना अपेक्षित है; और

यतः राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन के लिए तारीख इस तरह नियत की जानी अपेक्षित है कि यह निर्वाचन समय के अन्दर पूरा हो जाए ताकि इस प्रकार निर्वाचित राष्ट्रपति अपना पदभार वर्ष 2017 की जुलाई के पच्चीसवें दिन को ग्रहण कर सके ।

अतः अब, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा: –

- अ) संविधान के अनुच्छेद 54 में निर्दिष्ट निर्वाचक मंडल से यह अपेक्षा करता है कि वे संविधान के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) और तदधीन बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार, वर्तमान राष्ट्रपति की अवधि खत्म होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें; और
- आ) उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसरण में निम्नलिखित निर्धारित करता है:
- (क) नाम-निर्देशन करने की अन्तिम तारीख : 28 जून, 2017(बुधवार)
- (ख) नाम-निर्देशन की संवीक्षा की तारीख : 29 जून, 2017(गुरुवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख : 01 जुलाई, 2017(शनिवार)
- (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान होगा : 17 जुलाई, 2017(सोमवार)

आदेश से,

आर. के. श्रीवास्तव, वरिष्ठ प्रधान सचिव”

आदेश से,

राजेश कुमार, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

## OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI

### NOTIFICATIONS

Delhi, the 14th June, 2017

No. CEO/COE/102 (33)/2017/20487.—The following is published for general information:—

### “ELECTION COMMISSION OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2017

**No. 479/2017.**—Whereas, the term of office of Shri Pranab Mukherjee, President of India, is due to expire, in terms of clause (1) of Article 56 of the Constitution, on the 24<sup>th</sup> Day of July, 2017; and

Whereas, an election is due to be held, in terms of clause (1) of Article 62 of the Constitution, to fill the vacancy to be caused by the expiration of the term of office of the incumbent President before the expiration of term of his office; and

Whereas, under sub-section (3) of Section 4 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Election Commission of India is required to so appoint the dates for the election to fill the vacancy in the office of the President of India that the election will be completed at such time as will enable the President thereby elected to enter upon his office on the 25<sup>th</sup> Day of July, 2017;

Now, therefore, the Election Commission of India hereby –

- (A) **calls upon** the Electoral College, referred to in Article 54 of the Constitution, to elect a person to fill the above vacancy in the Office of President of India before the expiration of the term of the incumbent President, in accordance with the provisions of the Constitution, the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), and the Rules and Orders made thereunder; and
- (B) in pursuance of sub-section (1) of Section 4 of the said Act, **appoints** —
- a) the 28<sup>th</sup> June, 2017 (Wednesday), as the last date for making nominations;

- b) the 29<sup>th</sup> June, 2017 (Thursday), as the date for scrutiny of the nominations;
- c) the 1<sup>st</sup> July, 2017 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures; and
- d) the 17<sup>th</sup> July, 2017 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken.

By Order,

R. K. SRIVASTAVA, Sr. Principal Secy.”

By Order,

RAJESH KUMAR, Addl. Chief Electoral Officer

दिल्ली, 14 जून, 2017

सं. मु.चु.अ./चु.सं./102(33)/2017/20488.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है: —

### “भारत निर्वाचन आयोग

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2017

सं. 479/2017(1).—राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 7 के खण्ड (ख) के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा 10:00 बजे पूर्वाह्न से 5:00 बजे अपराह्न तक का समय, दोनों को सम्मिलित करते हुए, ऐसे समय के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, आयोग द्वारा राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए अपनी अधिसूचना संख्या 479/2017(2), तारीख 14 जून, 2017 में नियत, प्रत्येक स्थान पर, मतदान होगा।

आदेश से,

आर. के. श्रीवास्तव, वरिष्ठ प्रधान सचिव”

आदेश से,

राजेश कुमार, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

Delhi, the 14th June, 2017

No. CEO/COE/102 (33)/2017/20488.—The following is published for general information:—

### “ELECTION COMMISSION OF INDIA

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2017

No. 479/2017(1).—In pursuance of clause (b) of rule 7 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974, the Election Commission of India hereby specifies the hours from 10:00A.M. to 5:00P.M., both inclusive, to be the hours during which the poll shall, if necessary, be taken at each place of polling fixed by the Commission in its notification No. 479/2017 (2), dated the 14<sup>th</sup> June, 2017, for the Presidential Election, referred to therein.

By Order,

R. K. SRIVASTAVA, Sr. Principal Secy.”

By Order,

RAJESH KUMAR, Addl. Chief Electoral Officer

दिल्ली, 14 जून, 2017

सं. मु.चु.अ./चु.सं./102(33)/2017/20489.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है: —

### “भारत निर्वाचन आयोग

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2017

सं. 479/2017(2).—राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 7 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा-

- (क) नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट स्थानों में से प्रत्येक को अपनी अधिसूचना संख्या 479/2017, तारीख 14 जून, 2017 के अनुसार होने वाले राष्ट्रपतीय निर्वाचन में मतदान का स्थान नियत करता है; और
- (ख) मतदान के ऐसे प्रत्येक स्थान के बारे में, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट, निर्वाचकों के उस समूह को विनिर्दिष्ट करता है जो उक्त सारणी से संलग्न टिप्पणी में वर्णित अपवादों के अध्यधीन उस स्थान पर मतदान करने का हकदार होगा;

#### सारणी

क्र. सं.	मतदान का स्थान	निर्वाचकों का वह समूह जो निम्नलिखित स्थान पर मतदान करने का हकदार होगा
(1)	(2)	(3)
1.	कमरा सं 62, संसद भवन, नई दिल्ली-110001	संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
2.	समिति हॉल सं. 201, फर्स्ट फ्लोर, विधान सभा भवन, वेलागपुडी, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
3.	सम्मेलन कक्ष नं. 1, अरुणाचल प्रदेश के नए विधान सभा सचिवालय का परिसर, इटानगर	अरुणाचल प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
4.	सेंट्रल हॉल, असम विधान सभा भवन, दिसपुर	असम विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
5.	वाचनालय, पुस्तकालय की ऊपरी मंजिल, बिहार विधान सभा, पटना	बिहार विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
6.	समिति कक्ष नं. 2, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर	छत्तीसगढ़ विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
7.	कमरा सं. 015, ग्राउंड फ्लोर, वीआईपी ब्लॉक, विधानसभा परिसर, पोरबोरिम	गोवा विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
8.	सपुत्रा समिति हॉल, ग्राउंड फ्लोर, स्वर्णिम संकुल2-, गांधीनगर	गुजरात विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
9.	ओल्ड समिति कक्ष, हरियाणा विधानसभा सचिवालय, विधान भवन, चंडीगढ़	हरियाणा विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
10.	“डॉ वाई. एस. परमार, विधानसभा पुस्तकालय हॉल”, हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय, शिमला	हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्य

11.	जम्मू-कश्मीर विधान सभा लॉबी, नया विधानमंडल परिसर, श्रीनगर	जम्मू-कश्मीर विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
12.	न्यायाधिकरण कक्ष (ट्रिब्यूनल रूम), झारखंड विधान सभा परिसर, रांची	झारखंड विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
13.	रूम नं.106 , प्रथम तल, विधान सौध, कर्नाटक विधान सभा परिसर, बेंगलुरु- 560233	कर्नाटक विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
14.	रूम नं. 604, द्वितीय तल, केरल विधान सभा भवन, विधानमंडल परिसर, विकास भवन डाकघर, तिरुवनंतपुरम - 33	केरल विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
15.	समिति कक्ष सं. 2, एम-02 (ग्राउंड फ्लोर), इंदिरा गांधी विधान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
16.	सेंट्रल हॉल, चौथी मंजिल, विधान भवन, बैकवे रेक्लेमेशन, मुंबई - 400032	महाराष्ट्र विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
17.	समिति कक्ष, मणिपुर विधान सभा, चिंगमिरॉन्ग, इम्फाल, मणिपुर - 795001	मणिपुर विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
18.	एनेक्सी हॉल, मेघालय विधान सभा, रीलबोंग, शिलांग	मेघालय विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
19.	समिति कक्ष, मिजोरम विधान सभा, मुख्य भवन (दूसरी मंजिल), ट्रेजरी स्क्वायर, आइजोल	मिजोरम विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
20.	सम्मेलन कक्ष की एनेक्सी, विधानसभा सचिवालय, कोहिमा	नागालैंड विधान सभा के चुने हुए सदस्य
21.	कमरा सं. 54 (प्रथम तल), उड़ीसा विधान सभा भवन, भुवनेश्वर	उड़ीसा विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
22.	'समिति कक्ष ए', पंजाब विधान सभा सचिवालय, विधान भवन, चंडीगढ़	पंजाब विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
23.	कमरा सं. 751, राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर।	राजस्थान विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
24.	कमरा सं. 2, सिक्किम विधान सभा सचिवालय, गंगटोक	सिक्किम विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
25.	समिति कक्ष, तमिलनाडु विधान सभा सचिवालय, फोर्ट सेंट जॉर्ज, चेन्नई- 600009	तमिलनाडु विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
26.	समिति हॉल नं. 1, विधान सभा भवन, पब्लिक गार्डन्स, हैदराबाद	तेलंगाना विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
27.	विधान सभा लॉबी, त्रिपुरा विधान सभा, अगरतला	त्रिपुरा विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
28.	कक्ष संख्या 321, उत्तराखंड विधान सभा, देहरादून	उत्तराखंड विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
29.	तिलक हॉल, विधानभवन, लखनऊ	उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
30.	पश्चिम बंगाल विधान सभा का विधान सभा कक्ष, कोलकाता	पश्चिम बंगाल विधान सभा के निर्वाचित सदस्य

31.	समिति कक्ष नंबर 01, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के निर्वाचित सदस्य
32.	समिति कक्ष, ग्राउंड फ्लोर, पुडुचेरी विधान सभा सचिवालय का दक्षिणी ब्लॉक, पुडुचेरी	पुडुचेरी विधान सभा के निर्वाचित सदस्य

### टिप्पणी :-

सामान्य रूप से, संसद सदस्यों से अपना मतदान नई दिल्ली में करने और सभी राज्यों की संबंधित विधान सभा के सदस्यों से, संबंधित राज्य की राजधानी में मतदान करने की आशा की जाती है। तथापि, विशेष परिस्थितियों में, किसी भी तात्कालिक आवश्यकता के कारण संसद सदस्य, राज्य की राजधानी/दिल्ली/पुडुचेरी के किसी भी मतदान केन्द्र में अपना मत डाल सकते हैं। इसी प्रकार यदि कोई भी विधान सभा सदस्य जो संबंधित राज्य की राजधानी में मत डालने के स्थान पर नई दिल्ली या अन्य राज्य की राजधानी में मत डालने का इच्छुक हो, तो डाल सकता है। इस उद्देश्य के लिए ऐसे निर्वाचकों को निर्धारित प्रपत्र [रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर के पास तथा आयोग की वेबसाइट ([www.eci.nic.in](http://www.eci.nic.in)) पर उपलब्ध] में निर्वाचन आयोग में आवेदन करना होगा जिससे कि यह मतदान की तारीख से कम से कम 10 दिन पहले आयोग के पास पहुँच जाए।

आदेश से,

आर. के. श्रीवास्तव, वरिष्ठ प्रधान सचिव''

आदेश से,

राजेश कुमार, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

Delhi, the 14th June, 2017

No. CEO/COE/102 (33)/2017/20489.—The following is published for general information:—

### “ELECTION COMMISSION OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2017

**No. 479/2017(2).**—In pursuance of Rule 7 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974, the Election Commission of India hereby—

- fixes each of the places specified in column (2) of the Table below to be a place of polling at the Presidential Election to be held in accordance with its notification No. 479/2017, dated 14<sup>th</sup> June, 2017; and
- specifies, with respect to each such place of polling, the group of electors specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, who will be entitled to vote at that place, subject to the exceptions mentioned in the Note appended to the said Table:

**TABLE**

Sl. No.	Place of Polling	Group of electors who will be entitled to vote at the place
(1)	(2)	(3)
1.	Room No. 62, Parliament House, New Delhi-110001.	Elected Members of both <b>Houses of Parliament.</b>
2.	Committee Hall No. 201, First Floor, Assembly Buildings, Velagapudi, Guntur District, Andhra Pradesh.	Elected Members of the <b>Andhra Pradesh</b> Legislative Assembly
3.	Conference Room No. 1, premises of Arunachal Pradesh New Legislative Assembly Secretariat, Itanagar.	Elected Members of the <b>Arunachal Pradesh</b> Legislative Assembly

4.	Central Hall, Assam Legislative Assembly Building, Dispur.	Elected Members of the <b>Assam</b> Legislative Assembly
5.	Reading Room upper floor of Library, Bihar Legislative Assembly, Patna.	Elected Members of the <b>Bihar</b> Legislative Assembly
6.	Committee Room No. 2, Chhattisgarh Legislative Assembly Secretariat, Raipur.	Elected Members of the <b>Chhattisgarh</b> Legislative Assembly
7.	Room No. 015, Ground Floor, VIP Block, Assembly Complex, Porvorim.	Elected Members of the <b>Goa</b> Legislative Assembly
8.	Saputara Committee Hall, Ground Floor, Swarnim Sankul-2, Gandhinagar.	Elected Members of the <b>Gujarat</b> Legislative Assembly
9.	Old Committee Room, Haryana Vidhan Sabha Secretariat, Vidhan Bhawan, Chandigarh.	Elected Members of the <b>Haryana</b> Legislative Assembly
10.	“Dr. Y. S. Parmar Vidhan Sabha Library Hall”, Himachal Pradesh Vidhan Sabha Secretariat, Shimla.	Elected Members of the <b>Himachal Pradesh</b> Legislative Assembly
11.	J & K Legislative Assembly Lobby, New Legislature Complex, Srinagar.	Elected Members of the <b>Jammu &amp; Kashmir</b> Legislative Assembly
12.	Nyayadhikaran Kaksh (Tribunal Room), premises of Jharkhand Legislative Assembly, Ranchi.	Elected Members of the <b>Jharkhand</b> Legislative Assembly
13.	Room No. 106, 1 <sup>st</sup> Floor, Vidhana Soudha, premises of Karnataka Legislative Assembly, Bengaluru-560233.	Elected Members of the <b>Karnataka</b> Legislative Assembly
14.	Room No. 604, 2 <sup>nd</sup> Floor, Kerala Legislative Assembly Building Legislature Complex, Vikas Bhavan P.O, Thiruvananthapuram-33.	Elected Members of the <b>Kerala</b> Legislative Assembly
15.	Committee Room No. 2, M-02 (Ground Floor), Indira Gandhi Vidhan Bhawan, Arera Hills, Bhopal (M.P.).	Elected Members of the <b>Madhya Pradesh</b> Legislative Assembly
16.	Central Hall, 4th Floor, Vidhan Bhavan, Backbay Reclamation, Mumbai-400032.	Elected Members of the <b>Maharashtra</b> Legislative Assembly
17.	Committee Room, Manipur Legislative Assembly, Chingmeirong, Imphal, Manipur – 795001.	Elected Members of the <b>Manipur</b> Legislative Assembly
18.	Annexe Hall, Meghalaya Legislative Assembly, Rilbong, Shillong.	Elected Members of the <b>Meghalaya</b> Legislative Assembly
19.	Committee Room, Mizoram Legislative Assembly, Main Building (2 <sup>nd</sup> Floor), Treasury Square, Aizawl.	Elected Members of the <b>Mizoram</b> Legislative Assembly
20.	Annexe of the Conference Room, Assembly Secretariat, Kohima.	Elected Members of the <b>Nagaland</b> Legislative Assembly
21.	Room No. 54 (1 <sup>st</sup> Floor), Odisha Legislative Assembly Buildings, Bhubaneswar.	Elected Members of the <b>Odisha</b> Legislative Assembly
22.	‘Committee Room A’, Punjab Vidhan Sabha Secretariat, Vidhan Bhawan, Chandigarh.	Elected Members of the <b>Punjab</b> Legislative Assembly
23.	Room No. 751, Rajasthan Legislative Assembly Secretariat, Jaipur.	Elected Members of the <b>Rajasthan</b> Legislative Assembly
24.	Room No. 2, Sikkim Legislative Assembly Secretariat, Gangtok.	Elected Members of the <b>Sikkim</b> Legislative Assembly
25.	Committee Room, Tamil Nadu Legislative Assembly Secretariat, Fort St. George, Chennai-600009.	Elected Members of the <b>Tamil Nadu</b> Legislative Assembly
26.	Committee Hall No. 1, Assembly Buildings, Public Gardens, Hyderabad.	Elected Members of the <b>Telangana</b> Legislative Assembly
27.	Assembly Lobby, Tripura Legislative Assembly, Agartala.	Elected Members of the <b>Tripura</b> Legislative Assembly
28.	Room No. 321, Uttarakhand Legislative Assembly, Dehradun.	Elected Members of the <b>Uttarakhand</b> Legislative Assembly
29.	Tilak Hall, Vidhan Bhawan, Lucknow.	Elected Members of the <b>Uttar Pradesh</b> Legislative Assembly
30.	Assembly Chamber of the West Bengal Legislative Assembly, Kolkata.	Elected Members of the <b>West Bengal</b> Legislative Assembly
31.	Committee Room No. 01, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi-110054.	Elected Members of the <b>NCT of Delhi</b> Legislative Assembly
32.	Committee Room, Ground Floor, Southern Block of	Elected Members of the <b>Puducherry</b> Legislative

Puducherry Legislative Assembly Secretariat, Puducherry.	Assembly
---	----------

**NOTE**

Normally, members of Parliament are expected to cast their votes at New Delhi and members of all respective State Legislative Assemblies at the concerned State's Capital. However, on account of any exigency for special circumstances, the Members of Parliament can vote in any of the places of polling in the State Capital/Delhi/Puducherry. Similarly, any MLA desirous of voting at New Delhi or at any other State Capital instead of voting in the relevant State Capital can also do so. For this purpose, such electors shall have to apply to the Election Commission in the prescribed format [available with the Returning Officer and Assistant Returning Officers and also on the Commission's website (www.eci.nic.in)] so as to reach the Commission at least 10 days before the date of poll.

By Order,

R. K. SRIVASTAVA, Sr. Principal Secy."

By Order,

RAJESH KUMAR, Addl. Chief Electoral Officer

दिल्ली, 14 जून, 2017

सं. मु.चु.अ./चु.सं./102(33)/2017/20490.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है: —

**“भारत निर्वाचन आयोग****अधिसूचना**

नई दिल्ली, 14 जून, 2017

**सं. 479/2017(3).**—राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 9 के उपनियम (1) के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर को, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उनके नाम के सामने विनिर्दिष्ट स्थान पर आयोग की अधिसूचना सं. 479/2017(2), दिनांक 14 जून, 2017 के अनुसार आयोजित होने वाले राष्ट्रपतीय निर्वाचन में मतदान के संचालन के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट करता है:

**सारणी**

पीठासीन अधिकारी (1)	मतदान का स्थान (2)
श्री अनूप मिश्रा, महा सचिव, लोकसभा	कमरा सं 62, संसद भवन, नई दिल्ली-110001
श्री के. सत्यनारायण राव, राज्य विधानमंडल के प्रभारी सचिव, आंध्र प्रदेश विधान सभा सचिवालय, ब्लॉक-6, आई. जी. सी., वेलागापुडी- 522503, जिला-गुंटूर, आंध्र प्रदेश	समिति हॉल सं. 201, फर्स्ट फ्लोर, विधानसभा भवन, वेलागपुडी, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश
श्री मोदन लासा, सचिव, विधान सभा अरुणाचल प्रदेश, नाहरलगून- 791110	सम्मेलन कक्ष नं. 1, अरुणाचल प्रदेश के नए विधान सभा सचिवालय का परिसर, इटानगर
श्री एम.के. डेका, प्रमुख सचिव, असम विधान सभा, दिसपुर, गुवाहाटी- 6	सेंट्रल हॉल, असम विधान सभा भवन, दिसपुर



श्री राम श्रेष्ठ राँय, सचिव, बिहार विधान सभा, पटना	वाचनालय, पुस्तकालय की ऊपरी मंजिल, बिहार विधान सभा, पटना
श्री देवेन्द्र वर्मा, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा	समिति कक्ष नं. 2, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर
श्री एन.बी. सुभेदार, सचिव, गोवा विधानसभा सचिवालय	कमरा सं. 015, ग्राउंड फ्लोर, वीआईपी ब्लॉक, विधानसभा परिसर, पोरवोरिम
श्री डी.एम. पटेल, सचिव, गुजरात विधान सभा सचिवालय, विठ्ठलभाई पटेल भवन, सेक्टर नं. 10, गांधीनगर- 382010	सपुत्रा समिति हॉल, ग्राउंड फ्लोर, स्वर्णिम संकुल-2, गांधीनगर
श्री पंकज अग्रवाल, श्रम आयुक्त, हरियाणा सरकार	ओल्ड समिति कक्ष, हरियाणा विधान सभा सचिवालय, विधान भवन, चंडीगढ़
श्री सुंदर सिंह वर्मा, सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा	“डॉ वाई. एस. परमार, विधानसभा पुस्तकालय हॉल”, हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय, शिमला
श्री एम. आर. सिंह, सचिव, जम्मू-कश्मीर विधान सभा, विधान सभा सचिवालय जम्मू श्रीनगर	जम्मू-कश्मीर विधान सभा लॉबी, नया विधानमंडल परिसर, श्रीनगर
श्री बिनय कुमार सिंह, सचिव-प्रभारी, झारखंड विधान सभा, रांची	न्यायाधिकरण कक्ष (ट्रिब्यूनल रूम), झारखंड विधान सभा परिसर, रांची
श्री एस. मूर्ति, सचिव (प्रभारी), कर्नाटक विधान सभा, पोस्ट बॉक्स नं. 5074, कमरा सं. 121, प्रथम तल, विधान सौध, बेंगलूर-560233	रूम नं. 106, प्रथम तल, विधान सौध, कर्नाटक विधान सभा परिसर, बेंगलूर- 560233
श्री वी. के. बाबू प्रकाश, सचिव, केरल विधान सभा सचिवालय, तिरुवनंतपुरम- 695033	रूम नं. 604, द्वितीय तल, केरल विधानसभा भवन, विधानमंडल परिसर, विकास भवन डाकघर, तिरुवनंतपुरम – 33
श्री अवधेश प्रताप सिंह, प्रधान सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय भोपाल-462004 (म.प्र.)	समिति कक्ष सं. 2, एम-02 (ग्राउंड फ्लोर), इंदिरा गांधी विधान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
डॉ. ए.एन. कलसे, प्रमुख सचिव, महाराष्ट्र विधान सभा सचिवालय, विधान भवन, बैकबै रेक्लेमेशन, मुंबई- 400032.	सेंट्रल हॉल, चौथी मंजिल, विधान भवन, बैकबै रेक्लेमेशन, मुंबई – 400032
श्रीमती एम. रमनी देवी, सचिव, मणिपुर विधान सभा, चिंगमेराँन्ग, इंफाल, मणिपुर	समिति कक्ष, मणिपुर विधान सभा, चिंगमेराँन्ग, इम्फाल, मणिपुर – 795001
श्री एंड्रू सिमंस, आयुक्त और सचिव, मेघालय विधान सभा विधानसभा	एनेक्सी हॉल, मेघालय विधान सभा, रीलबोंग, शिलांग
श्री नगुरथानजुआला, सचिव, मिजोरम विधान सभा सचिवालय, आइजोल- 796001	समिति कक्ष, मिजोरम विधान सभा, मुख्य भवन, (दूसरी मंजिल) ट्रेजरी स्क्वायर, आइजोल
श्री एन. बेंजामिन न्यूमाई, आयुक्त और सचिव, नागालैंड विधान सभा	सम्मेलन कक्ष की एनेक्सी, विधानसभा सचिवालय, कोहिमा

श्री अमिय कुमार सारंगी, सचिव, ओडिशा विधान सभा, उड़ीसा विधान सभा सचिवालय, भुवनेश्वर, जिला खुर्द, ओडिशा- 751001	कमरा सं. 54 (प्रथम तल), ओडिशा विधान सभा भवन भुवनेश्वर
श्रीमती शशि लखनपाल मिश्रा, सचिव, पंजाब विधान सभा सचिवालय, सेक्टर- 1, चंडीगढ़	'समिति कक्ष ए', पंजाब विधान सभा सचिवालय, विधान भवन, चंडीगढ़
श्री पृथ्वी राज, सचिव, राजस्थान विधान सभा	कमरा सं. 751, राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर।
श्री एल.एम. प्रधान, सचिव, सिक्किम विधान सभा	कमरा सं. 2, सिक्किम विधान सभा सचिवालय, गंगटोक
श्री के. भूपथी, अपर सचिव/सचिव प्रभारी, तमिलनाडु विधान सभा सचिवालय, चेन्नई-600009	समिति कक्ष, तमिलनाडु विधान सभा सचिवालय, फोर्ट सेंट जॉर्ज, चेन्नई-600009
डॉ. एस. राजा सदाराम, राज्य विधान मंडल के सचिव, तेलंगाना विधानसभा सचिवालय, पब्लिक गार्डन्स, हैदराबाद-500004	समिति हॉल नं.1, विधान सभा भवन, पब्लिक गार्डन्स, हैदराबाद
श्री बमदेव मजूमदार, सचिव, त्रिपुरा विधान सभा, अगरतला-799010	विधानसभा लॉबी, त्रिपुरा विधान सभा, अगरतला
श्री जगदीश चंद्र, सचिव, विधान सभा भवन 303, देहरादून	कक्ष संख्या 321, उत्तराखंड विधान सभा, देहरादून
श्री प्रदीप कुमार दुबे, प्रधान सचिव, विधान सभा, विधान भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ-226001	तिलक हॉल, विधान भवन, लखनऊ
श्री जयंत कोले, सचिव, पश्चिम बंगाल विधान सभा, विधान सभा भवन, कोलकाता – 700001	पश्चिम बंगाल विधान सभा का विधानसभा कक्ष, कोलकाता
श्री अभिषेक देव, जिला मजिस्ट्रेट, दक्षिण पश्चिम दिल्ली	समिति कक्ष नंबर 01, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054
श्री ए. विन्सेन्ट रायर, सचिव, विधान सभा सचिवालय, विक्टर साइमोनेल स्ट्रीट, पुडुचेरी- 605001	समिति कक्ष, ग्राउंड फ्लोर, पुडुचेरी विधान सभा सचिवालय का दक्षिणी ब्लॉक, पुडुचेरी

आदेश से,

आर. के. श्रीवास्तव, वरिष्ठ प्रधान सचिव”

आदेश से

राजेश कुमार, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

Delhi, the 14th June, 2017

No. CEO/COE/102 (33)/2017/20490.—The following is published for general information:—

**“ELECTION COMMISSION OF INDIA****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th June, 2017

**No. 479/2017(3).**—In pursuance of sub-rule (1) of Rule 9 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974, the Election Commission of India hereby specifies the Returning Officer/Assistant Returning Officer, mentioned in column (1) of the Table below, to be the Presiding Officer at the place mentioned against his name in column (2) of the said Table for the conduct of poll at the Presidential Election to be held in accordance with the Commission's notification No. 479/2017 (2), dated 14<sup>th</sup> June, 2017:

**TABLE**

<b>Presiding Officer (1)</b>	<b>Place of Polling (2)</b>
Shri Anoop Mishra, Secretary General, Lok Sabha.	Room No. 62, Parliament House, New Delhi-110001.
Shri K. Satyanarayana Rao, In-charge Secretary to State Legislature, Andhra Pradesh Legislature Secretariat, Block-6, I.G.C., Velagapudi-522503, Guntur District, Andhra Pradesh.	Committee Hall No. 201, First Floor, Assembly Buildings, Velagapudi, Guntur District, Andhra Pradesh.
Shri Modan Lasa, Secretary, Legislative Assembly Arunachal Pradesh, Naharlagun-791110	Conference Room No. 1, premises of Arunachal Pradesh New Legislative Assembly Secretariat, Itanagar.
Shri M. K. Deka, Principal Secretary, Assam Legislative Assembly, Dispur, Guwahati-6	Central Hall, Assam Legislative Assembly Building, Dispur.
Shri Ram Shreshtha Roy, Secretary, Bihar Legislative Assembly, Patna	Reading Room upper floor of Library, Bihar Legislative Assembly, Patna.
Shri Devendra Verma, Principal Secretary, Chhattisgarh Legislative Assembly.	Committee Room No. 2, Chhattisgarh Legislative Assembly Secretariat, Raipur.
Shri N.B. Subhedar, Secretary, Goa Legislature Secretariat	Room No. 015, Ground Floor, VIP Block, Assembly Complex, Porvorim.
Shri D.M. Patel, Secretary, Gujarat Legislature Secretariat, Vitthalbhai Patel Bhavan, Sector No.-10, Gandhinagar-382010	Saputara Committee Hall, Ground Floor, Swarnim Sankul-2, Gandhinagar.
Shri Pankaj Agarwal, Labour Commissioner, Government of Haryana.	Old Committee Room, Haryana Vidhan Sabha Secretariat, Vidhan Bhawan, Chandigarh.
Shri Sunder Singh Verma, Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha.	“Dr. Y. S. Parmar Vidhan Sabha Library Hall”, Himachal Pradesh Vidhan Sabha Secretariat, Shimla.
Shri M. R. Singh, Secretary, Jammu & Kashmir Legislative Assembly, Assembly Secretariat Jammu/Srinagar.	J & K Legislative Assembly Lobby, New Legislature Complex, Srinagar.
Shri Binay Kumar Singh, Secretary-In-Charge, Jharkhand Legislative Assembly, Ranchi.	Nyayadhikaran Kaksh (Tribunal Room), premises of Jharkhand Legislative Assembly, Ranchi.
Shri S. Murthy, Secretary (I/C), Karnataka Legislative Assembly, P.B. No. 5074, Room No. 121, 1 <sup>st</sup> Floor, Vidhana Soudha, Bengaluru-560233	Room No. 106, 1 <sup>st</sup> Floor, Vidhana Soudha, premises of Karnataka Legislative Assembly, Bengaluru-560233.
Shri. V. K. Babu Prakash, Secretary, Kerala Legislature Secretariat, Thiruvananthapuram-695033	Room No. 604, 2 <sup>nd</sup> Floor, Kerala Legislative Assembly Building Legislature Complex, Vikas Bhavan P.O, Thiruvananthapuram-33.
Shri Awadhesh Pratap Singh, Principal Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha Secretariat, Bhopal-462004(M.P)	Committee Room No. 2, M-02 (Ground Floor), Indira Gandhi Vidhan Bhawan, Arera Hills, Bhopal (M.P.).

Dr. A. N. Kalse, Principal Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat, Vidhan Bhavan, Backbay Reclamation, Mumbai-400032.	Central Hall, 4th Floor, Vidhan Bhavan, Backbay Reclamation, Mumbai-400032.
Smt. M. Ramani Devi, Secretary, Manipur Legislative Assembly, Chingmeirong, Imphal, Manipur.	Committee Room, Manipur Legislative Assembly, Chingmeirong, Imphal, Manipur – 795001.
Shri Andrew Simons, Commissioner & Secretary, Meghalaya Legislature Assembly.	Annexe Hall, Meghalaya Legislative Assembly, Rilbong, Shillong.
Shri Ngurthanzuala, Secretary, Mizoram Legislative Assembly Secretariat, Aizawl-796001.	Committee Room, Mizoram Legislative Assembly, Main Building (2 <sup>nd</sup> Floor), Treasury Square, Aizawl.
Shri N. Benjamin Newmai, Commissioner & Secretary, Nagaland Legislative Assembly.	Annexe of the Conference Room, Assembly Secretariat, Kohima.
Shri Amiya Kumar Sarangi, Secretary, Odisha Legislative Assembly, Odisha Legislative Assembly Secretariat, Bhuaneshwar, District-Khurda, Odisha - 751001.	Room No. 54 (1 <sup>st</sup> Floor), Odisha Legislative Assembly Buildings, Bhubaneswar.
Smt. Shashi Lakhnpal Mishra, Secretary, Punjab Vidhan Sabha Secretariat, Sector-1, Chandigarh.	'Committee Room A', Punjab Vidhan Sabha Secretariat, Vidhan Bhawan, Chandigarh.
Shri Prithvi Raj, Secretary, Rajasthan Legislative Assembly.	Room No. 751, Rajasthan Legislative Assembly Secretariat, Jaipur.
Shri L. M. Pradhan, Secretary, Sikkim Legislative Assembly.	Room No. 2, Sikkim Legislative Assembly Secretariat, Gangtok.
Shri K. Boopathy, Additional Secretary/ Secretary Incharge, Tamil Nadu Legislative Assembly Secretariat, Chennai-600009.	Committee Room, Tamil Nadu Legislative Assembly Secretariat, Fort St. George, Chennai-600009.
Dr. S. Raja Sadaram, Secretary to State Legislature, Telangana Legislature Secretariat, Public Gardens, Hyderabad-500004.	Committee Hall No. 1, Assembly Buildings, Public Gardens, Hyderabad.
Shri Bamdeb Majumder, Secretary, Tripura Legislative Assembly, Agartala-799010.	Assembly Lobby, Tripura Legislative Assembly, Agartala.
Shri Jagdish Chandra, Secretary, 303, Vidhan Sabha Bhawan, Dehradun.	Room No. 321, Uttarakhand Legislative Assembly, Dehradun.
Shri Pradeep Kumar Dubey, Principal Secretary, Vidhan Sabha, Vidhan Bhavan, Uttar Pradesh, Lucknow – 226001	Tilak Hall, Vidhan Bhawan, Lucknow.
Shri Jayanta Koley, Secretary, West Bengal Legislative Assembly, Assembly House, Kolkata-700001	Assembly Chamber of the West Bengal Legislative Assembly, Kolkata.
Shri Abhishek Dev, District Magistrate, South West Delhi.	Committee Room No. 01, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi-110054.
Shri A. Vincent Rayar, Secretary, Legislative Assembly Secretariat, Victor Simonel Street, Puducherry-605001.	Committee Room, Ground Floor, Southern Block of Puducherry Legislative Assembly Secretariat, Puducherry.

By Order,

R. K. SRIVASTAVA, Sr. Principal Secy.”

By Order,

RAJESH KUMAR, Addl. Chief Electoral Officer

दिल्ली, 14 जून, 2017

सं. मु.चु.अ./चु.सं./102(33)/2017/20491.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है: —

^i z i 1

½jk'V¼rh; vk½ mi jk'V¼rh; fuokpu fu; e] 1974 dk fu; e 3 nf[k, ½

Hkkjr ds jk'V¼fr in ds fy, fuokpu

dh

ykd l ipuk

भारत के राष्ट्रपति पद को भरने के लिए निर्वाचन करने के लिए, निर्वाचन आयोग द्वारा, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना निकाल दी गई है, अतः ऐसे निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर, मैं, अनूप मिश्र, सूचना देता हूँ कि—

- (i) अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा नामनिर्देशन पत्र निम्न हस्ताक्षरकर्ता को कमरा नं. 18, भू-तल, संसद भवन, नई दिल्ली में उसके कार्यालय में या यदि वह अपरिवर्जनीय रूप से अनुपस्थित हो, तो सहायक रिटर्निंग आफिसर श्री रविन्द्र गरिमेला, संयुक्त सचिव, या श्री विनय कुमार मोहन, निदेशक, लोक सभा सचिवालय को उक्त कार्यालय में 28 जून, 2017 के अनुपरान्त (लोक अवकाश—दिन से भिन्न) किसी दिन 11 बजे पूर्वाह्न और 3 बजे अपराह्न के बीच परिदत्त किए जा सकेंगे;
- (ii) हर एक नामनिर्देशन पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी से सम्बद्ध प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति लगाई जाएगी, जिसमें अभ्यर्थी निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;
- (iii) हर अभ्यर्थी केवल पन्द्रह हजार रुपये की राशि जमा करेगा या जमा करावएगा । यह रकम नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग आफिसर के पास नकद जमा की जा सकेगी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी सरकारी खजाने में इससे पहले जमा की जा सकेगी और पश्चात्कथित दशा में ऐसी रसीद का, जिसमें यह दर्शित किया गया हो कि उक्त राशि जमा कर दी गई है, नामनिर्देशन पत्र के साथ लगाया जाना आवश्यक होगा;
- (iv) नामनिर्देशन पत्रों के प्ररूप पूर्वोक्त कार्यालय से पूर्वोक्त समय पर प्राप्त किए जा सकेंगे;
- (v) अधिनियम की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर किए गए नामनिर्देशन पत्रों से भिन्न नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा उपरोक्त कार्यालय कमरा नं 18, भू-तल, संसद भवन, नई दिल्ली में 29 जून 2017 को 11 बजे पूर्वाह्न की जायेगी;
- (vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अभ्यर्थी, या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा, जो अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप में इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, निम्न हस्ताक्षरकर्ता को, उपरोक्त पैरा (i) में निर्दिष्ट स्थान में 1 जुलाई, 2017 को तीन बजे अपराह्न से पहले परिदत्त की जा सकेगी;
- (vii) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में मतदान इन नियमों के अधीन नियत किए गए मतदान के स्थानों में 17 जुलाई, 2017 को 10.00 बजे पूर्वाह्न और 5.00 अपराह्न के बीच होगा

नई दिल्ली :

अनूप मिश्र, राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017

दिनांक 14 जून, 2017

के लिए रिटर्निंग आफिसर

महासचिव, लोक सभा"

आदेश से,

राजेश कुमार, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

Delhi, the 14th June, 2017

No. CEO/COE/102 (33)/2017/20491.—The following is published for general information:—

**“FORM 1**

*(See rule 3 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974)*

**PUBLIC NOTICE**

**OF**

**ELECTION TO THE OFFICE OF PRESIDENT OF INDIA**

Whereas a notification under sub-section (1) of section 4 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952, for the holding of an election to fill the Office of President of India has been issued by the Election Commission, I, Anoop Mishra, the Returning Officer for such election, do hereby give notice that—

- (i) nomination papers may be delivered by a candidate or any one of his proposers or seconders to undersigned at his office in Room No.18, Ground Floor, Parliament House, New Delhi, or if he is unavoidably absent, to the Assistant Returning Officers, Shri Ravindra Garimella, Joint Secretary or Shri Vinay Kumar Mohan, Director, Lok Sabha Secretariat, at the said office between 11 A.M. and 3 P.M. on any day (other than a public holiday) not later than the 28<sup>th</sup> June, 2017;
- (ii) each nomination paper shall be accompanied by a certified copy of the entry relating to the candidate in the electoral roll for the Parliamentary constituency in which the candidate is registered as an elector;
- (iii) every candidate shall deposit or cause to be deposited a sum of rupees fifteen thousand only. This amount may be deposited in cash with the Returning Officer at the time of presentation of the nomination paper or deposited earlier in the Reserve Bank of India or in a Government Treasury and in the latter case a receipt showing that the said deposit of the sum has been so made is required to be enclosed with the nomination paper;
- (iv) forms of nomination papers may be obtained from the above said office at the times aforesaid;
- (v) the nomination papers, other than those rejected under sub-section (4) of section 5B of the Act, will be taken up for scrutiny at the said office in Room No.18, Ground Floor, Parliament House, New Delhi on 29 June, 2017, at 11 A.M.;
- (vi) the notice of withdrawal of candidatures may be delivered by a candidate, or any one of his proposers or seconders who has been authorised in this behalf in writing by the candidate, to the undersigned at the place specified in paragraph (i) above before three o'clock in the afternoon of 1 July, 2017;
- (vii) In the event of the election being contested, the poll will be taken on 17 July, 2017 between the hours of 10 A.M. and 5 P.M. at the places of polling fixed under the rules.

New Delhi;

Dated, the 14<sup>th</sup> June, 2017

ANOOP MISHRA, Returning Officer for Election  
to the Office of President of India, 2017  
Secy.-General, Lok Sabha”

By Order,

RAJESH KUMAR, Addl. Chief Electoral Officer